

NOTES FOR THE MONTH OF JULY 2025 - 2026

पाठ : 1. वारणासी

2. गुणकारी और लाख-प्रद देवा

पद्य : यह है भारत देश हमारा

0. प्रोकरण : संज्ञा, लिंग

पत्र लेखन : आर्थिक सहायता P.No. 188

I शब्दार्थ P.No. 37

II नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक

उत्तर कीजिए :

P.No. 37

उत्तर :

क. जर्मनी के राजा का नाम जोसेफ द्वितीय था।

ख. जोसेफ ने स्त्री का हाल जानकर उसे एक कागज में कुछ लिखकर दिया और कहा, "मैंने सब कुछ समझ लिया है। इसे अपने बेटे को दे देना, सब ठीक हो जाएगा।"

ग. राजा ने राजा के लिखे कागज के बारे में बताया, "जो आदमी डॉक्टर बनकर तुम्हारी माँ को देखने आया था, वह डॉक्टर नहीं, बल्कि राजा जोसेफ थे।"

घ. उस डॉक्टर का सच अर्थात् राजा के बारे में जानकर लड़का प्रसन्नता से पूल उठा और माँ की ली आधी बीमारी ही ठीक हो गई। वह राजा जोसेफ को दुआ और धन्यवाद दे रही थी।

III रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

(क) कराह (ख) मेहनत - मजदूरी

(ग) चौक (घ) राशि

IV नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

P. No. 38

(क) जर्मनी के राजा वेश बदलकर हर मुहल्ले और गलियों में प्रजा की वास्तविक हालत को जानने के लिए रात में या दिन के समय घूमा करते थे।

(ख) राजा ने गरीब लड़के से पूछा, " क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा कमानेवाला नहीं है?"

(ग) दूसरे डॉक्टर ने जब बाइशाह के पर्चे को देखा तो चौंक पड़े और कहा "यह बहुत बड़े डॉक्टर का नुस्खा है। उसमें जो दवा लिखी है, उससे सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।" उन्होंने बाद में बताया कि इस पर्चे में लड़के के खजाने से काकी बेकम देने की बात लिखी है।

(घ) इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सेवक ही सच्चा स्वामी होता है। अर्थात् सच्चा सेवक बनकर सब लोगों की कलाई की जा सकती है।

V निम्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए :

क. आकाश।

वेर, बहुत ज्यादा भार होना।

अ. तुलना में
दृष्टान्त न देना

ग. शुरु
अव्यय

घ. छल
फरवाणा, स्वार

संधि कीजिए P. No. 41

1. क. देवर्षि ख. रमेश ग. शूक्ति
घ. देवालय

2. संधि विच्छेद कीजिए

(क) परम + ईश्वर (ख) नर + ईश

(ग) छात्र + आवास (घ) परम + अर्थ

(ङ) ब्रह्म + प्रसिद्धि

वाराणसी

I शब्दार्थ P. No. 48

II मौखिक प्रश्न - उत्तर P. No. 48

क. वाराणसी का नाम 'वरुणा' और 'असि' नदियों के मिल से बना है।

ख. कदाचित् के अनुसार वाराणसी की स्थापना ब्राह्मण शिव शंकर ने लगभग 5000 साल पहले की थी।

ग. वाराणसी शहर का उल्लेख रामायण महाभारत और प्राचीन वेदों में है।

III चिह्न ✓ लगाइए P. No. 49

क. ii ख. ii

IV स्थानों की पूर्ति कीजिए P. No. 50

क. वरुणा, असि ख. व्यापारिक, धार्मिक

ग. गंगा, एम्बान घ. देशहरा, धूमधाम

ड. रामसहाय, पाँच

V प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

क. वाराणसी 18 वी. शताब्दी में स्वतन्त्र काशी राज्य बना। बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन यह एक प्रमुख रूप से व्यापारिक और धार्मिक केन्द्र रहा।

(ख) वाराणसी में प्रमुख पुराने विश्वविद्यालयों के नाम हैं -

- (i) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
- (ii) सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
- (iii) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
- (iv) केन्द्रीय बिब्वती अध्ययन विश्वविद्यालय

(ग) वाराणसी संस्कृति, कला, साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण काशी विश्वनाथ मंदिर है। बनारस की विशिष्ट तबला वादन शैली सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। वाराणसी का रंजम विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग प्रेम एवं सत्कार की भावना से भरे हुए हैं।

(घ) पुराना वाराणसी शहर भीड़-भाड़ वाली सँकरी गलियों और किनारे पर खटी हुई लुट्टी-छोटी असंख्य दुकानों व सैकड़ों मंदिरों के कारण अपनी प्राचीनता का अंदाज़ा फ़िताता था।

वाक्य बनारस

(क) शिक्षा - शिक्षा पाना हमारा मौलिक अधिकार है।

(ख) संस्कृति - हमारे देश में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता विद्यमान है।

(ग) प्रसिद्ध - वाराणसी शहर प्रसिद्ध है।

(घ) पवित्र - गंगा एक पवित्र नदी है।

(ङ) कला - तबला वादन एक अद्भुत कला है।

P. No. 51

1. क. अत्यधिक , अत्यवश्यक
 ख. निर्बल , निर्मल
 ग. अनपद , अनदेखा
 घ. स्वदेश , स-वाभिमान

2. क. ब्राह्मणी
 ख. बिल्ली
 ग. मालिन
 घ. आदमी
 इ. अध्यापिका
 च. चागवती

3. क. साडियाँ
 ख. मटियाँ
 ग. लोटे
 घ. कुर्त
 इ. चिडियाँ
 च. कसाई

P. No. 52

1. क. अन्वय
 ख. देवशिव
 ग. प्रत्ययि
 घ. पावन
 इ. तथैव
 च. परमोपध
 छ. प्रत्येक
 ज. नायक

१. चंद्र + उदय
 २. राज + प्रसिद्धि
 ३. सदा + एव
 ४. इति + आदि
 ५. अनु + एषण
 ६. गौ + अक
 ७. गो + उक

यह है भारत देश हमारा
सुब्रह्मण्यम भारती

I शोधार्थ P.No. 25

II प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए :-

उ.क. कवि सुब्रह्मण्यम को ११ वर्ष की अवस्था में उनकी काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने 'भारती' की उपाधि से विभूषित किया।

उ.ख. भारती कवि होने के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एका के सेतु के समान थे।

उ.ग. भारत की भूमि स्वर्णम इसलिए कही गई है क्योंकि वहाँ पर प्रसिद्धि और मुनिओं ने तप किए हैं और भारतीय संस्कृति की चमक चारों ओर फैलाई है।

उ.घ. भारत भूमि में भगवान बुद्ध की ज्ञानमय करुणा का प्रचार-प्रसार एवं वर्णन हुआ है।

सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए

P. No. 26

1. क. (ii) ख. (iii) ग. (iv)

निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में भी लिखिए।

देश - राष्ट्र Country, Nation

शुभा - सफेद White

जग - संसार World

पुरातन - प्राचीन Ancient

निकेतन - घर Home

पत्र लेखन (व्याकरण - भास्ती - P. No. 188)

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानमार्थ को एक प्रार्थना पत्र लिखिए।